

STATEMENT RE STARRED QUESTION NO. 615 ANSWERED ON THE 24TH AUGUST, 1966

EXPORTS BY M/S. CHAMANLAL & BROS.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. C. PANT); Regarding the reply given to parts (a) and (b) of Starred Question No. 615 answered in the Rajya Sabha on the 24th August, 1966. I would like to make the following correction: —

It was mentioned that out of the sum of £305,092 (Appx. Rs. 40 lakhs) to be realised by M/s. Chamanlal & Bros, and sister concerns, on account of their exports in respect of which the bills were discounted by Dena Bank, a total sum of £88,000 had been repatriated. There has been an inaccuracy in the figures. The actual amount repatriated was £ 73,000 and not £88,000 as stated in the reply. The balance to be repatriated would be £232,092 and not £217,092.

RE. A POINT OF PRIVILEGE

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन् अखबारों में आपने भी पढ़ा होगा और सदन के सम्मानित सदस्यों ने भी पढ़ा होगा कि कल लखनऊ में मुझे गिरफ्तार किया गया। यूँ गिरफ्तारी से मैं ध्वस्त नहीं हूँ . . .

श्री आबिद अली (महाराष्ट्र) : वहाँ तो आग की ही सरकार है।

श्री राजनारायण : ठीक है, वह हमारी सरकार है, तभी छूट गया, नहीं तो शायद अभी जेल में रहता।

कल मुझे दिनांक 6-4-67 को 3 बजे शाम को लखनऊ में गिरफ्तार किया गया। मेरी गिरफ्तारी शुद्ध द्वेषपूर्ण, दुर्भावना के साथ अवैध ढंग से की गई। जिस वारंट पर मुझे गिरफ्तार किया गया, वह वारंट भी कानून की निगाह में सही नहीं है। इसमें तारीख पर न तो मजिस्ट्रेट के दस्तखत हैं, न कोर्ट की सील मोहर है, न किसी का भी इनीशियल है। वह मैन्यूप्रेशन है, फोर्जरी है।

10 मई, सन 66 को उत्तर प्रदेश में संयुक्त संघर्ष समिति, जिसका मैं संयोजक था, की ओर से लोक कल्याणकारी मांगों जैसे लगान, भूमी, भवन कर की समाप्ति, महंगाई की रोक, सस्ते गल्ले की दुकानों को खोलना आदि आदि शामिल हैं, लेकर एक प्रदर्शन का आयोजन लखनऊ में किया गया था। विधान भवन के सामने प्रदर्शन होने के बाद दर्शनकारी तत्कालीन माल मंत्री श्री हुकुम सिंह के बंगले पर गये। मैंने वहाँ पर प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित किया था। ऐसा लगता है कि बाद में इस घटना को सरकार ने तथ्यांकित क्रिमिनल ट्रेसपास का मुकद्दमा बनाया और उसी के तहत यह वारंट जारी किया। इस सम्बन्ध में मैं यह भी स्पष्ट कर दूँ कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री चन्द्रभान गुप्त ने विधान सभा में यह भी एलान किया था कि घेरा डालो आन्दोलन के संबंध में मुकद्दमे वापस ले लिये जायेंगे। कल गिरफ्तारी के बाद मुझे सरकारी सूत्रों से यह भी पता चला कि सारे राजनैतिक मुकद्दमे स्थगित कर दिये गये हैं।

मेरी यह गिरफ्तारी वर्तमान प्रथम गैर-कांग्रेसी मंत्रिमंडल के निर्माण के प्रथम दिन नाटकीय ढंग से हुई। इसके पीछे वर्तमान प्रथम गैर-कांग्रेसी मंत्रिमंडल को बदनाम करने की साजिश भी है। जो पुलिस अफसरान वर्तमान मंत्रिमंडल को अपने

[श्री राजनारायण]

लिये खतरा समझते हैं और जो आर्ट कांग्रेस शासन में अपनी नाजायज हरकतों के लिये मशहूर थे, मेरी गिरफ्तारी उन्हीं की साजिश का नतीजा है। उन्होंने मेरे और वर्तमान सरकार के बीच तफरका पैदा करने के लिये यह साजिश की है। मुझे इस बात की खुशी है कि मौजूदा मुख्य मंत्री, चौधरी चरण सिंह जी ने घटना की जानकारी होते ही अविलम्ब उचित कार्यवाही की। उनकी तत्परता के ही कारण कल मैं 8 बजे रात रिहा हो पाया।

उपर्युक्त ढंग से मेरी गिरफ्तारी करके मेरे विशेषाधिकार का उल्लंघन किया गया है। अतः मैं निवेदन करता हूँ कि उपर्युक्त मामला विशेषाधिकार समिति में भेजा जाय।

श्री सभापति : यह बैकग्राउण्ड मैटीरियल है। वारंट में जो गलती है वह बताइये।

श्री राजनारायण : श्रीमन वही बता रहा हूँ जरा सुना जाय। यह वारंट है। वारंट में इसी लिये अपने साथ लेता आया कि चेयरमैन साहब की खिदमत में पेश कर दूँ और सदन के सम्मानित सदस्यों की खिदमत में पेश कर दूँ। यह वारंट 13-3-67 को कोर्ट ने जारी किया है और मेरे लिये ही नहीं मुझे पता चला है कि इसी तरह से वारंट डा० जेड० ए० अहमद के लिये, होमी दाजी के लिये, राम सैवक यादव के लिये क्योंकि ये लोग भी उस दिन वहाँ पर मौजूद थे और इन्होंने मीटिंग को ऐड्रेस किया था, सबके लिये हैं। 18-3-67 को कोर्ट के सामने मुझे उपस्थित करने के लिये गिरफ्तार करें, इसके लिये नानबेलेबिल वारंट जारी किया गया था। अब श्रीमन 18-3-67 बीत गयी और जब 18-3-67 बीत गयी तो इस वारंट की कानून की निगाह में कोई वैल्यू नहीं रह गई। अब यह महत्वहीन हो गया है और पुलिस को चाहिये था कि

वह इस वारंट को अदालत के सामने पेश करती और अदालत हमारी गिरफ्तारी को जरूरी समझती तो अदालत दूसरा फ्रेश वारंट जारी करती। फिर इस पर न तो कोर्ट का दस्तखत है, न तो तो इसमें किसी उसके पेशकार का दस्तखत है, न कोई मोहर है, फोरजरी और मैनुपुलेशन करके 13-4 इस पर लिख दिया गया और 2-4-67 को इसपर दस्तखत है इंस्पेक्टर, हजरतगंज का और न्यायालय को प्राप्त होने के दिनांक का जो कालम है उस पर पुलिस इंस्पेक्टर का हस्ताक्षर है। कल जब मुख्य मंत्री को इस घटना की जानकारी हुई तो वे बेचारे बहुत ही दुखी हुये और उन्होंने साफ इस बात को कहा कि मुझ को बदनाम करने के लिये ऐसा लगता है कि प्रथम दिन पहले दिन ही ऐसा किया गया। जैसे ही पहले गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ और शपथ खत्म हो गई और ज्यों ही मैं आ रहा हूँ वहाँ से उठ कर अपने कमरे में, त्यों ही ढाई बजे के बाद, तीन बजे पुलिस के लोग हमारे यहाँ आये और कहे कि साहब, आपकी गिरफ्तारी है। वह वारंट दिया गया। वारंट में कोई मामला नहीं है। तीन बजे से लेकर 8, साढ़े 8 बजे तक में बराबर अपने कमरे में बैठा था। मुख्य मंत्री ने बिल्कुल सही कानूनी कार्यवाही की। उन्होंने होम सेक्रेटरी को बुलाया। होम सेक्रेटरी ने मजिस्ट्रेट से बात की और उन्होंने कहा कि कोई मजिस्ट्रेट जाकर उनकी जमानत ले क्योंकि गिरफ्तारी हुई है। वारंट को देखा जाय। हमने उसके ऊपर साफ लिख दिया "मेरे साथ अवैध कार्यवाही हुई है, वारंट गैरकानूनी है, उस पर 13-3-67 को न तो मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर हैं, न पेशकार के हैं, न किसी कोर्ट की मुहर है। यदि कायदे से समन द्वारा तलब कराया जायगा तो नियमतः मैं कानून की निगाह में जो सही काम होगा उसके मुताबिक आदेश का पालन करूंगा—राजनारायण 6-4-67। अब उन्होंने

बड़ी मुश्किल से हमारे मांगने पर यह दिया। चाहते थे कि इनकी गिरफ्तारी को छिपा दिया जाय। जब उन्होंने देखा कि मौजूदा शासन जस्ट है और मौजूदा शासन उन पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ है जो कांग्रेसी शासन में खुले आम अवैध काम किया करते थे, जब उन्होंने देखा कि यह शासन उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगा तो उन्होंने मुश्किल से हमें यह दिया और लिख दिया कि 6-4-67 के सवा 8 बजे रात राजनारायण सिंह, एम० पी०, को दो सौ रुपए के जाती मुचलके पर रिहा किया गया। ये उनके हस्ताक्षर हैं।

श्री आबिद अली : बस दो सौ रुपए ही कीमत है ?

श्री राजनारायण : हमारी कीमत कुछ नहीं है। एक बहुत बड़ा राजनीति शास्त्र का दार्शनिक था थोरो अमरीका का, उसने कहा है कि --

"If a State is governed by the principles of reason, misery and poverty are subjects of shame. If a State is not governed by the principles of reason, honour and riches are not subjects of shame."

अब इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार थी वह प्रिंसिपल आफ रीजन से गवर्न नहीं करती थी। वहां बड़ा पैसा, बड़ा धन तमाम 420 करने वाले . . .

श्री सभापति : राजनारायण जी, इस किस्से को आप क्यों लेते हैं ?
(Interruptions) आप लोग मौका देते हैं।

श्री राजनारायण : मैं आपसे यह अर्ज कर रहा था कि 1954 में इसी डीवाई० ए० पी० ने मुझे गिरफ्तार किया था जिसने लखनऊ में अब गिरफ्तार कराया।

श्री सभापति : यह तो एनशिएन्ट हिस्टरी है।

श्री राजनारायण : मैं आपको खिदमत में मेलिस साबित कर रहा हूँ।

श्री सभापति : मैं आपके मामले को बिलकुल समझ गया हूँ, आपने पहले भी समझा दिया था, आप बहुत काफी कह चुके हैं।

श्री राजनारायण : ठीक है, श्रीमन। आपसे एक अर्ज है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजे ताकि इस पर उचित कार्यवाही हो और बृहते हुए कांग्रेसी साम्राज्यवाद के रोड़े हमको परेशान न करें। मैं वर्तमान मुख्य मंत्री से भी अपील करता हूँ कि वे इस खंडहर के इन रोड़ों को मसल दें।

SHRI DAHYABHAI V. PATEL-(Gujarat):
Mr. Chairman, this is a serious matter which should be referred to the Privileges Committee. I very often do not agree with my friend Shri Rajnarain and some of his methods but on this point I think he is right. It is a very serious matter and the matter should be referred to the Privileges Committee and proper action taken in the matter.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal):
I entirely agree with what my friend has said that the matter should be referred to the Privileges Committee. I have also before me the original warrant of what is purported to be a warrant and It is an extremely suspicious document. Mr. Chairman, we are not concerned with any other thing except what involves our privileges here. The State Government can handle the matter in the proper way. If it becomes possible for any police officer or for any magistrate to arrest us whenever he likes and put us in custody whenever he likes, nothing is left of the dignity and honour of this House. They take the House for granted. They think

and they have been made to think under the Congress that they can arrest the people of the Opposition at any time they like and put them in detention or arrest them in this manner. Unfortunately things have changed. They are not naturally adjusted to the new situation.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: Fortunately things have changed.

SHRI BHUPESH GUPTA: Unfortunately for them. For me it is a great day. Now it is a clear case of malice, aggravated malice here because they want to create political complications and the arresting authorities must be doing it with premeditation that by such arrest they will try to create some kind of a confusion and some kind of a rift between some who sit in the Opposition here and the Government which is a non-Congress Government there. Fortunately the Chief Minister has acted rightly and I hope he will take the most severe action against the police officer but we are not concerned with it. Therefore, here is a clear, flagrant violation of everything. The police officers and the magistrates in the country should be made to realise that this Parliament and its Members are not small coins to be dealt with as they like. Therefore, I would earnestly appeal to you: 'Do not treat this as a sort of a routine case'. In the circumstances I take it that you will come to the conclusion that the man has acted with an aggravated motive. For, motive is important here, because the policeman sure^e knew that a non-Congress Government has come into existence of which the S.S.P., of which Shri Rajnarain is the leader, is a big constituent. Knowing all this they have done it. Therefore, you can understand why they have done. The man should be summoned.

MR. CHAIRMAN: I have understood it.

SHRI BHUPESH GUPTA: I hope this will go before the Committee. I

move that the matter referred to by Shri Rajnarain be sent to the Privileges Committee.

MR. CHAIRMAN: I would beg of the Members not to use unnecessarily the time of the House. If you are supporting it, you can say what you support it. We have understood the matter thoroughly.

SHRI BANKA BEHARY DAS (Orissa): I want to bring a new point. In my view it is a fit case to be referred to the Privileges Committee. There are two issues involved in it. One is that he has been prevented from carrying on his duties which have been assigned to him by the electorate and the other is that after the arrest, the magistrate has not informed you till now that he has been arrested. For both the reasons, it is a gross violation of the privileges of this House

MR. CHAIRMAN: No, I have been informed.

SHRI BANKA BEHARY DAS: We are not informed till now.

MR. CHAIRMAN: I did not have the time.

SHRI BANKA BEHARY DAS: So it is a fit case to be referred.

SHRI NIREN GHOSH (West Bengal): I support it. During this Session of Parliament an assurance was given that Members will not be arrested in this way. It also contradicts that thing. So it should be referred to the Privileges Committee.

श्री निरंजन वर्मा : (मध्य प्रदेश) मैं श्रीमान से यह निवेदन करूंगा कि हम संसद् के सदस्यगण कोई विशेष अधिकार नहीं चाहते, देश में जो कानून हैं उनका पालन करना चाहते हैं। कानून के अनुसार तीन प्रकार के वारन्ट होते हैं—एक मुचलके पर, एक जमानती, एक गैर-जमानती और जब एक तारीख दे दी गई है, वह तारीख निकल गई, उसके

बाद भी अगर गिरफ्तारी किसी सदस्य की
की जाती है तो . . .

श्री सभापति : बर्मा साहब, ये सब बातें
कह दी गई हैं।

SHRI G. RAMACHANDRAN
(Nominated): Sir, as a Member belonging to
no party in the House, I would make a few
observations. I begin by agreeing with my
friend Mr. Patel that I am no political ally in
any sense of my friend Shri Rajnarain but I
have watched his courage and the difficulties
he can create on the floor of this House. All
that I know but the question today is this,

(Interruptions)

My friend is adding a rider to what I was
saying. He produces a warrant of arrest signed
by an Inspector of Police or somebody. This
is scandalous in the Independent Republic of
India. This is no longer the day of the British
Zulum. It is our Government, they are our
people and he is our man and a Member of
Parliament. If a Member of Parliament is not
treated with dignity, to whichever party he
belongs, then the danger is to Parliament and
not to any party. It is not signed properly.
Then it was issued before the new Ministry
took charge. The thing looks suspicious. I
know that the Chief Minister has intervened at
once and let him off on bail and so on and if
we are to accept his word, the new Chief
Minister is annoyed at this. AH this creates a
very bad taste in the mouth of the people. And
this is a party which is already in the
doldrums. They should take great care not to
create this kind of a bad impression in the
country . .

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I am not con"cerned with
any party; I am concerned -with the
privilege of the House.

श्री प्रतुल चन्द्र मिश्र : (बिहार)
एक ही बात कहती है। यह जो अभी गैर-

कांग्रेस सरकार यू० पी० में है उसके बारे में
न कह कर कांग्रेस सरकार के बारे में जो कुछ
कहा गया है यह इसके साथ कोई रिलेवन्सी
नहीं रखता क्योंकि गैर-कांग्रेस सरकार ने
जो गलती की है उसको छिपाने के लिये
खास कर अभी कोशिश हो रही है। मेरा
एक प्वाइन्ट है : जो प्रिविलेज कमेटी के सदस्य
हैं उन्होंने पूरी बात नहीं जान कर, पहले ही
अपनी राय वहाँ के बारे में दी है इसलिये
प्रिविलेज कमेटी में वह सदस्य न रहें क्योंकि
श्री भूपेश गुप्त, जहाँ तक मेरी जानकारी
है उसकमेटी के सदस्य हैं।

SHRI BHUPESH GUPTA: On a
point of order, Sir; he cannot say
things without understanding what I
said.

श्री प्रतुल चन्द्र मिश्र : अपनी राय जांच
करने के पहले ही दे दी इसलिये उस प्रिविलेज
कमेटी में श्री भूपेश गुप्त न रहें और जो बातें
अभी यहाँ कही गई हैं वह प्रिविलेज कमेटी
ध्यान में नहीं ले। जो कागज पत्र है वह रखा
जाय और जो पहले प्रजुडिस करने को
बातें कही गई हैं वह नहीं रखी जायें।

श्री सभापति : अच्छी बात है। श्री
गंगाशरण सिंह।

SHRI P. N. SAPRU (Uttar Pra-
desh): On a point of clarification,
Mr. Chairman.

MR. CHAIRMAN: I have called
Mr. Gangasharan Sinha. He very
seldom speaks.

श्री गंगाशरण सिंह : (बिहार) श्रीमन
मुझे इस सम्बंध में विशेष नहीं कहना है लेकिन
आपकी माफ़त में सदन की दूसरी ओर के जो
सदस्य हैं उनसे यह अनुरोध करना चाहता
हूँ कि इस प्रश्न को पार्टी का प्रश्न न बनाया
जाय। जो परिस्थिति राजनारायण जी ने
बतलाई है जिस रोज़ उनकी गिरफ्तारी
हुई है और जिस तरह का यह वाक्या है और

[श्री गंगाशरण सिंह]

जो सारा वातावरण है उससे शक पैदा होता है और यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है। राजनारायण जी ने कांग्रेस व गैर-कांग्रेस गवर्नमेंट के बारे में जो कहा और जो विचार उन्होंने प्रगट किये उन्हें छोड़ दीजिये, लेकिन जो परिस्थिति बतलाई गई है और जिस प्रकार की घटना बतलाई गई है और जिस वातावरण में सारा वाक्या हुआ है वह एक पार्लियामेंट के मेम्बर के प्रति शोभनीय व्यवहार नहीं हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। इस लिये मेरा निवेदन और अनुरोध है, कि इसे विवाद का विषय न बनाकर प्रिविलेज कमेटी में भेजा जाना चाहिये।

प्रतुल बाबू ने कहा कि जो अपनी राय जाहिर कर चुके हैं उनको प्रिविलेज कमेटी में नहीं रहना चाहिये, वह ठीक नहीं है। बात यह है कि जो भी राय जाहिर की गई है वह 'मेरिट' पर नहीं की गई है। अभी तो यह राय जाहिर की गई है कि इसको प्रिविलेज कमेटी में जाना चाहिये या नहीं और अगर कोई इस विषय को प्रिविलेज कमेटी में जाने के पक्ष में राय प्रगट करता है तो इससे उस सदस्य का प्रिविलेज कमेटी में रहने का अधिकार नहीं छिन जाता।

SHRI M. M. DHARIA: (Maharashtra): Sir, I entirely agree with the view now expressed by the hon. Member, Ganga Babuji, just now. Unfortunately, I am really sorry when, as happened now, parties are dragged in this dispute. It is not at all the Congress Party which is to be blamed if Mr. Rajnarain is arrested. It is under the regime of a non-Congress Party rule that he has been arrested, and it is for the Chief Minister concerned, or the Government concerned, to take action against those who are guilty of that. But to bring in the Congress Party and political colour to this whole aspect is absolutely wrong, improper and not at all befitting the

occasion. Sir, I do feel that as Members of Parliament we do enjoy certain privileges in this country and they should remain unfettered, and if the police officers or somebody else are going to challenge those privileges this way, it is necessary that they must be called before the Privileges Committee and the Privileges Committee must be requested to go into all these aspects and to come before this House with its report. Therefore I stand by the suggestion made by Ganga Babuji not to bring in any political colour to this aspect.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: It is all black colour.

SHRI M. M. DHARIA: If the friends from the other side desire or intend in any way to blackmail the Congress over this issue, I would say that it will not be fair, and here they have done that. Mr. Rajnarain has done that, which he should not have done.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: What is the blackmail here?

SHRI M. M. DHARIA: Therefore my submission to the House is this. Let us not bring any sort of political colour to this aspect, the arrest of Mr. Rajnarain without proper warrant, or a warrant which was not signed by the proper authority when it was renewed; it is absolutely improper.

MR. CHAIRMAN: So far as I am concerned, there is nothing political. I have to deal with the matter on its merits.

SHRI M. M. DHARIA: Therefore, Sir, I would submit that the whole House should agree to referring this matter to the Privileges Committee and no political colour should be brought in. This is my suggestion to the other side as well.

SHRI P. N. SAPRTJ: Mr. Chairman, I would like to clarify one point of the matter. I have been a member of the Privileges Committee for a num-

ber of years and I can testify to this fact that Mr. Bhupesh Gupta has always acted very honourably in the Privileges Committee. He has never taken any interest in the Privileges Committee, has not taken part in the Privileges Committee when any question affecting him, or anyone about whom he has spoken in the House has been referred to it.

MR. CHAIRMAN: You are quite sure of that.

SHRI P. N. SAPRU: I wanted to pay a tribute to the integrity with which he had worked as a member of the Privileges Committee.

SHRI B. K. P. SINHA (Bihar): Mr. Chairman, it is a well-established tradition in all mature democracies that two issues are never treated as partisan issues : No. 1, the issue of privilege; No. 2, the issue of disqualification or qualification of Members, because these two issues really affect (1) the dignity of the whole House, not the dignity of a Member concerned, much less the dignity of a party. The other issue of disqualification or qualification, really relates to the proper and pure composition of the House, the highest legislative body in the country. It is unfortunate that in this Parliament, both these issues—I have watched with some concern during the last fifteen years—both these issues have been made party issues. Who is more to blame, whether the Opposition, or whether we on this side, is not for me to say at this stage.

AN HON. MEMBER: Why don't you?

SHRI B. K. P. SINHA: But I feel that the time has come when we must establish firmly the convention here that when issues of privilege are raised, No. 1 they should not be raised for partisan advantage, and No. 2 they should not be opposed on partisan grounds. And, therefore, I feel that this issue should be judged on its merits regardless of party affiliation. If there are some on that side

who feel that it should not go before the Privileges Committee, they should not be inhibited by partisan considerations. And the same applies to hon. Members on this side. It is for the House to decide whether this issue is a proper issue for the Privileges Committee, or not, but I will request the House to treat this issue in a nonpartisan Manner and in a non-partisan spirit.

श्री चन्द्र शंकर (उत्तर प्रदेश) : सभा-पति महोदय, मुझे एक ही निवेदन करना है कि जैसा अन्य भित्तों ने कहा है कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न है, यह कोई दल से संबन्ध नहीं रखता है। मुझे तो आश्चर्य यह होता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री चौधरी चरण सिंह पिछले कुछ दिनों में पांच दस बार यह दोहरा चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में नौकरशाही को जो अधिकार पहले थे वे अब नहीं रहेंगे लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि राजनारायण जी को रिहा हो ने में पांच घंटे लगे और जो पक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया है उससे आश्चर्य होता है कि अब तक सम्बन्धित आफिसर मुअत्तिल क्यों नहीं हुआ है, इतनी बुलन्द, क्रान्तिकारी, सरकार के होते हुए भी। वह हो जाना चाहिये था। जो केवल दो तथ्य दिये हैं अगर वे तथ्य सही हैं तो कांग्रेसी मुख्य मन्त्री हो या गैर-कांग्रेसी मुख्य मन्त्री हो, उसको तुरन्त उस अधिकारी को मुअत्तल करना चाहिये और उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये थी। तो मुझे आश्चर्य है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री जो पिछले पांच दिनों में कम से कम दस बार कह चुके, अखबारों में आया है, कि सारी दुनिया बदल गई है, क्रान्तिकारी परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हो गया है लेकिन उस परिवर्तन को हम देख नहीं पाए। सभापति महोदय, मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि मैं उनकी इस बात का समर्थन करता हूं। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि यह अधिकार सभापति महोदय को होना चाहिये कि आप देख लें और उसकी जांच कर लें और विशेषाधिकार समिति को भेज

[श्री चन्द्र शेखर]

द । कम से कम हम लोगों को उसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VTDYA CHARAN SHUKLA): Sir, I share the anxiety of the hon. Member in this respect, but I would submit that we should be given some time so that we can refer this matter to the Government of U.P., get the facts from them, and then we shall come to the House again tomorrow and place the facts as we obtain them from the U.P. Government. And then the House in its wisdom can take a decision in this respect.

MR. CHAIRMAN: I take a very serious view of this matter. But with regard to the technique of doing, if the House agrees, I would allow the Home Minister to make enquiry and let us know by tomorrow . . .

SHRI BHUPESH GUPTA: This is strange. The issue is not between us and the Home Ministry. This is between the House and the person responsible for it. How does the Home Minister come into it?

MR. CHAIRMAN: You need not say anything. I have made up my mind. If there is any objection to that . . .

SHRI BHUPESH GUPTA: I do object.

MR. CHURMAN: I thought it would facilitate matters, but if there is any objection, I have made up my mind. I think the arrest was made on a warrant which appears *prima facie* to be a very, very doubtful document and so the matter should be referred to the Privileges Committee with the request that they should submit their report before the end of the next session.

Then the question was asked - whether we have received informa-

tion. We have received information and I have the telegram here.

RE. MADAME SVETLANA

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश)
श्रीमन् ।

MR. CHAIRMAN: About Svet-lana? I have come to a conclusion on the question of privilege that you have raised. Mr. Gaure Murahari showed me the letter in your absence.

श्री राजनारायण : जी हां, श्रीमन्, स्वेतलाना का खत आप को इन्होंने दिखा दिया है । एक नई इन्फार्मेशन आप को दे दूँ । स्वीटजरलैण्ड की सरकार की ओर से भी अखबारों में वक्तव्य आ चुका है कि स्वेतलाना ने समाजवादी नेता डा० राम मनोहर लोहिया को एक खत भेजा है और अब इससे वह पब्लिक फर्म हो जाता है ।

श्री सभापति : आपने भी मुझे समझा दिया और मैंने वह खत भी देख लिया है । अब मैं आप को बता रहा हूँ जो मैंने फैसला किया है :

The matter concerning Madame Svetlana has been raised in this House on a number of occasions this session by Shri Rajnarain and the Minister of External Affairs has made statements on the subject. I have also received notice of a question of breach of privilege concerning the statement of the Minister which I have disallowed as I have taken the view that no breach of privilege was involved.

The latest development in this matter is the production of a letter said to have been written by Madame Svetlana to Dr. Lohia. It has been urged that Shri Dinesh Singh, who was Minister of State in the Ministry of External Affairs at the relevant time and to whom the lady is alleged